

उपसंहार

केन्द्रीय भण्डारण निगम के दैनिक काम-काज में राजभाषा का काफी अच्छा प्रयोग हो रहा है । निगम द्वारा हिन्दी के कार्यान्वयन, प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयास भी काफी सराहनीय हैं । निगम के हिन्दी कार्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा निगम को कई बार राजभाषा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है ।

केन्द्रीय भण्डारण निगम के कार्य का ढांचा, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली, दैनिक काम-काज में समाज के विभिन्न वर्गों से सम्पर्क तथा निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती व स्थानान्तरण की नीति, जिसमें हिन्दी तथा हिन्दीतर भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दीतर तथा हिन्दी भाषी दोनों प्रकार के राज्यों में स्थानान्तरित किया जाता है, हिन्दी के विकास, प्रचार-प्रसार के काफी अनुकूल और सहायक है । इन्हीं नीतियों, प्रणालियों के अधीन निगम द्वारा प्रयोजनमूलक हिन्दी को और भी अधिक सुदृढ़ तथा विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

तथापि निगम में हिन्दी के कार्यान्वयन, प्रचार-प्रसार हेतु किए जा रहे प्रयासों के अतिरिक्त आवश्यकता है राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट व स्थिर नीति बनाने की । राजभाषा को मन से स्वीकार करने एवं राजभाषा में ही सोचने व कार्य करने की अटूट लगन की । आवश्यकता है स्वतन्त्र मानसिकता से सहयोगात्मक कार्य वातावरण में अनिवार्यता और दृढ़ता के साथ मजबूत समीकरण बनाने की, जिससे राजभाषा के प्रयोग को कार्यरूप में लाने के साथ-साथ तत्सम्बन्धी आदेशों, निदेशों एवं अनुदेशों को निष्ठापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके, राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन हो सके तथा निगम में राजभाषा के प्रयोग को और भी बढ़ावा मिल सके ।